



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

27 फरवरी 2009



खंड 24

संख्या 9

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां

(करोड़ रुपए)

मद	2008	2009		घट-बढ़	
	22 फरवरी	13 फरवरी	20 फरवरी #	सप्ताह	वर्ष
1	2	3	4	5	6
जारी नोट	5,65,775	6,66,064	6,66,963	899	1,01,188
संचलन में नोट	5,65,755	6,66,041	6,66,941	900	1,01,186
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	20	23	22	-2	2
जमाराशियां					
केंद्र सरकार	54,209	101	100	-1	-54,108
बाजार स्थिरीकरण योजना	1,76,018	1,02,946	1,01,991	-956	-74,027
राज्य सरकार	41	41	41	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2,62,601	2,00,608	2,17,679	17,072	-44,922
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3,491	2,636	2,830	194	-661
अन्य बैंक	11,776	9,370	9,614	244	-2,162
अन्य	11,711	13,717	12,244	-1,473	533
अन्य देयताएं	1,76,503	3,19,311	3,45,561	26,250	1,69,059
कुल देयताएं / आस्तियां	12,62,124	13,14,794	13,57,024	42,230	94,899
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	11,39,388	11,69,170	11,95,508	26,338	56,120
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	36,236	43,549	43,549	—	7,313
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	74,685	57,875	71,630	13,755	-3,054
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	—	15,392	17,820	2,428	17,820
राज्य सरकारें	—	—	—	—	—
नाबार्ड	—	—	—	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	4,592	7,702	7,093	-610	2,501
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	29	—	—	—	-29
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	811	4,449	5,349	900	4,537
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	2,750	2,750	2,750	—	—
अन्य आस्तियां	3,634	13,907	13,326	-581	9,692

(1) विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों / बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं।

(2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है।

(3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	20 फरवरी 2009 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2008 की समाप्ति पर		दिसंबर 2008 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ रुपए	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ रुपए	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ रुपए	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ रुपए	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ रुपए	मिलि. अम. डॉलर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल भंडार	12,43,154	249,527	26,387	-165	5,189	-60,196	2,993	-6,441	65,843	-45,083
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	11,95,508	239,821	26,338	-156*	-515	-59,409	718	-6,782	56,120	-45,168
(ख) स्वर्ण	43,549	8,884	—	—	3,425	-1,155	2,439	399	7,313	-315
(ग) विशेष आहरण अधिकार	6	1	—	—	-68	-17	-7	-2	5	1
(घ) आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	4,091	821	49	-9	2,347	385	-157	-56	2,405	399

* : अ.डॉ. के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।

** : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित स्थिति अर्थात् प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक जापान मद के रूप में दिखाया गया है उसे अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल किया गया है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ रुपए)

मद	13 फरवरी 2009 को बकाया #	पखवाड़े में	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़			
			वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2007-2008	2008-2009	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	45,154	1,009	-1,388	-1,624	4,159	5,770
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	31,857	7,213	-7,550	-1,139	-5,304	4,009
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	25,205	-207	5,489	6,826	8,413	7,342
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां	36,85,973	17,172	4,24,080	4,89,034	5,83,370	6,49,959
		(0.5)	(16.2)	(15.3)	(23.8)	(21.4)
मांग	4,48,367	-15,131	3,006	-75,942	39,792	15,630
मीयादी	32,37,606	32,303	4,21,074	5,64,976	5,43,579	6,34,329
उधार ⁽³⁾	1,11,476	-9,904	18,652	4,972	20,768	6,989
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	2,91,509	-14,372	41,650	-6,847	49,737	7,625
रिजर्व बैंक से उधार	7,702	1,442	-6,245	3,702	-1,695	7,702
रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष	2,20,468	2,408	55,787	-54,698	82,424	-31,680
पास में नकदी	19,860	-1,522	147	1,816	2,886	3,574
रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	2,00,608	3,931	55,640	-56,514	79,538	-35,255
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	41,425	-415	8,178	5,409	11,929	3,778
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	22,356	3,362	-3,741	2,430	-2,470	7,830
बैंकों को अग्रिम	2,825	153	-3,204	-955	-1,936	-174
अन्य आस्तियां	47,503	2,912	6,456	16,347	13,895	17,544
निवेश⁽⁵⁾	11,72,622	6,571	1,91,072	2,00,908	2,12,998	1,90,034
		(0.6)	(24.1)	(20.7)	(27.7)	(19.3)
सरकारी प्रतिभूतियों में	11,55,030	6,649	1,93,458	1,96,368	2,15,270	1,85,513
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	17,593	-79	-2,386	4,540	-2,271	4,521
बैंक ऋण	26,46,783	10,445	2,82,831	2,84,870	4,00,354	4,32,763
		(0.4)	(14.6)	(12.1)	(22.1)	(19.5)
खाद्य ऋण	47,068	1,548	-3,702	2,669	-1,180	4,250
खाद्येतर ऋण	25,99,715	8,898	2,86,533	2,82,200	4,01,534	4,28,513
ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	25,53,625	10,673	2,78,550	2,92,049	3,88,911	4,31,204
देशी बिल - खरीदे गए	12,511	-435	-4,713	-82	-651	1,306
भुनाए गए ⁽⁶⁾	39,310	1,227	5,260	-1,244	5,594	2,736
विदेशी बिल - खरीदे गए	16,305	-153	-1,735	-195	-461	1,897
भुनाए गए	25,033	-867	5,469	-5,658	6,961	-4,380
नकद-जमा अनुपात	5.98					
निवेश-जमा अनुपात	31.81					
ऋण-जमा अनुपात	71.81					

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुसूची मदों में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एक्जिम बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनःभुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित अवधि में घटबढ़ प्रतिशत दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद / सप्ताहांत	2008	2009					
	15 फरवरी	9 जनवरी	16 जनवरी	23 जनवरी	30 जनवरी	6 फरवरी	13 फरवरी
1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	7.50	5.50	5.50	5.00	5.00	5.00	5.00
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आइडीबीआई ⁽²⁾	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25
मूल उधार दर ⁽³⁾	12.75-13.25	12.00-12.50	12.00-12.50	12.00-12.50	12.00-12.50	11.50-12.50	11.50-12.50
जमा दर ⁽⁴⁾	8.25-9.00	8.25-10.00	8.25-9.00	8.00-9.00	8.00-9.00	7.75-9.00	7.75-9.00
मांग मुद्रा दर (न्यून/उच्च) ⁽⁵⁾							
- लिये गए उधार	4.50/6.94	2.50/5.58	2.00/4.50	2.00/4.75	2.00/4.50	2.00/4.50	2.00/5.54
- दिये गए उधार	4.50/6.94	2.50/5.58	2.00/4.50	2.00/4.75	2.00/4.50	2.00/4.50	2.00/5.54

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) न्यूनतम मीयादी उधार दर (एमटीएलआर)। (3) पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित मूल उधार दर। (4) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित। (5) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बाँडों/वाणिज्य पत्र आदि में निवेश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपए)

मद	2008 - 2009			2007 - 2008		
	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (3)-(2)	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (6)-(5)
	2008	2009		2007	2008	
	28 मार्च	13 फरवरी		30 मार्च	15 फरवरी	
1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक ऋण	23,61,914	26,46,783	2,84,870 (12.1)	19,31,189	22,14,020	2,82,831 (14.6)
क. खाद्य ऋण	44,399	47,068	2,669	46,521	42,818	-3,702
ख. खाद्येतर ऋण	23,17,515	25,99,715	2,82,200	18,84,669	21,71,201	2,86,533
			(12.2)			(15.2)
2. निवेश	95,506	1,03,938	8,432	83,545	94,516	10,971
क. वाणिज्यिक पत्र	13,045	17,623	4,577	8,978	13,197	4,219
ख. निम्न (क+ख) द्वारा जारी शेयर	26,410	28,141	1,731	18,352	27,252	8,900
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	3,023	2,768	-255	2,127	3,139	1,012
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	23,387	25,373	1,986	16,225	24,113	7,888
ग. निम्न (क+ख) द्वारा जारी बांड/ डिबेंचर	56,051	58,174	2,123	56,216	54,068	-2,148
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	27,382	24,355	-3,027	28,595	27,455	-1,141
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	28,669	33,819	5,150	27,620	26,613	-1,007
3. कुल (1ख+2)	24,13,021	27,03,653	2,90,632 (12.0)	19,68,214	22,65,718	2,97,504 (15.1)
ज्ञापन मदे :						
में निवेश						
क. पारस्परिक निधियों द्वारा जारी लिखतें	18,692	82,299	63,607	11,659	45,842	34,182
ख. सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी लिखतें	25,555	29,568	4,013	26,189	23,809	-2,380
ग. अन्यो द्वारा जारी बांड / डिबेंचर	29,230	29,722	493	17,623	16,911	-712

टिप्पणी : 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

6. विदेशी मुद्रा दरें - हाज़िर और वायदा प्रीमिया

विदेशी मुद्रा	2009					वार्षिक वृद्धि (+) ह्रास (-) (प्रतिशत)				
	16 फरवरी	17 फरवरी	18 फरवरी	19 फरवरी	20 फरवरी	16 फरवरी	17 फरवरी	18 फरवरी	19 फरवरी	20 फरवरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी डॉलर	48.7200	49.1600	49.8500	49.8500	..	—	—	-20.44	-20.02	..
यूरो	62.1000	62.1800	62.8800	62.7500	..	—	—	-7.41	-6.63	..
फेडरल की सांकेतिक दरें (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी डॉलर { खरीद	48.7100	49.1700	49.8500	49.8500	49.9400	—	—	-20.46	-20.02	-19.60
{ बिक्री	48.7200	49.1800	49.8600	49.8600	49.9500	—	—	-20.46	-20.02	-19.60
पौंड { खरीद	69.1475	69.8400	71.0550	71.1150	71.0850	—	—	9.43	9.38	10.05
स्टर्लिंग { बिक्री	69.1825	69.8850	71.0900	71.1500	71.1200	—	—	9.42	9.38	10.05
यूरो { खरीद	62.1000	62.1850	62.8500	62.7300	62.9100	—	—	-7.39	-6.57	-6.16
{ बिक्री	62.1275	62.2075	62.8725	62.7600	62.9275	—	—	-7.39	-6.58	-6.15
100 येन { खरीद	53.0675	53.2075	53.9625	53.3275	53.0600	—	—	-31.86	-30.66	-29.84
{ बिक्री	53.0950	53.2250	53.9775	53.3425	53.0825	—	—	-31.86	-30.66	-29.82
अमरीकी डॉलर का अंतर-बैंक वायदा प्रीमियम (प्रतिशत वार्षिक)										
1 - माह	2.96	3.05	3.01	2.77	..					
3 - माह	2.55	2.69	2.49	2.33	..					
6 - माह	2.09	2.16	1.97	1.89	..					

— : पिछले वर्ष के तदुत्तरूपी दिन बाज़ार बंद।

टिप्पणी : 1. एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1993 से लागू हुई।

2. रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2008 31 मार्च #	2009 13 फरवरी #	पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2007-2008		2008-2009		2008		2009	
			राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एम ₃	40,06,722	45,90,189	36,039	0.8	5,11,218	15.4	5,83,467	14.6	6,79,677	21.6	7,62,878	19.9
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	5,67,476	6,52,440	18,364	2.9	72,002	14.9	84,964	15.0	72,468	15.0	97,533	17.6
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	5,74,408	4,96,609	-15,244	-3.0	2,643	0.6	-77,799	-13.5	42,650	9.8	18,279	3.8
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा	28,55,769	34,34,186	32,591	1.0	4,39,358	18.7	5,78,418	20.3	5,64,554	25.4	6,44,824	23.1
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	9,069	6,953	328	5.0	-2,785	-37.2	-2,116	-23.3	4	0.1	2,242	47.6
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	9,07,077	11,91,412	24,188	2.1	16,977	2.0	2,84,335	31.3	39,312	4.8	3,40,200	40.0
(क) रिजर्व बैंक	-1,13,209	-29,814	17,138		-1,80,514		83,395		-1,78,060		1,48,278	
(ख) अन्य बैंक	10,20,286	12,21,226	7,050	0.6	1,97,491	23.7	2,00,940	19.7	2,17,372	26.8	1,91,923	18.6
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	25,69,912	28,77,090	11,957	0.4	2,92,595	13.7	3,07,177	12.0	4,11,467	20.5	4,54,417	18.8
(क) रिजर्व बैंक	1,788	5,749	1,350	30.7	-154	-10.0	3,960	221.5	-58	-4.0	4,365	315.6
(ख) अन्य बैंक	25,68,124	28,71,341	10,607	0.4	2,92,749	13.8	3,03,217	11.8	4,11,525	20.5	4,50,051	18.6
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	12,95,131	12,31,564	-1,890	-0.2	2,76,529	30.3	-63,568	-4.9	2,94,658	32.9	41,855	3.5
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	9,324	9,787	—	—	790	9.6	463	5.0	903	11.1	737	8.1
(v) बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं	7,74,723	7,19,664	-1,784	-0.2	75,673	13.3	-55,059	-7.1	66,663	11.5	74,331	11.5
उनमें से : रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	2,10,206	3,10,731	-2,969	-0.9	-15,229	-8.6	1,00,525	47.8	-12,246	-7.0	1,48,942	92.1

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2008 31 मार्च #	2009 20 फरवरी #	सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2007-2008		2008-2009		2008		2009	
			राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आरक्षित मुद्रा	9,28,417	9,12,332	16,937	1.9	1,48,417	20.9	-16,085	-1.7	1,87,580	28.0	54,925	6.4
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	5,90,901	6,76,729	900	0.1	70,607	14.0	85,828	14.5	76,652	15.4	1,01,923	17.7
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	3,28,447	2,30,123	17,510	8.2	80,573	40.8	-98,324	-29.9	1,10,978	66.5	-47,745	-17.2
(iii) रिजर्व बैंक के पास "अन्य" जमा	9,069	5,480	-1,473	-21.2	-2,763	-36.9	-3,589	-39.6	-50	-1.0	747	15.8
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण : उसमें से - केंद्र को	-1,13,209	-12,488	17,325		-1,57,977		1,00,721		-1,40,945		1,43,065	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से: बैंकों को (नाबाई सहित)	-1,14,636	-12,447	17,325		-1,57,648		1,02,189		-1,40,818		1,43,065	
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6,378	13,741	290		-2,441		7,363		3,220		7,010	
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	4,590	7,093	-610		-2,917		2,503		2,648		2,374	
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयता	12,36,130	12,39,039	26,338	2.2	3,09,454	35.7	2,909	0.2	3,22,610	37.8	63,432	5.4
उनमें से : रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयता	9,324	9,787	—	—	790	9.6	463	5.0	948	11.7	737	8.1
	2,10,206	3,37,747	27,016	8.7	1,410	0.8	1,27,541	60.7	-1,748	-1.0	1,59,319	89.3

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो/रिवर्स रेपो की नीलामी

(करोड़ रुपए)

चलनिधि समायोजन सुविधा (तारीख)	रेपो अवधि (दिन)	रेपो (बढ़ाना)					रिवर्स रेपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि (+)/कमी(-) (6-11)	बकाया राशि @ 14
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16 फर. 2009	1	—	—	—	—	—	12	38,130	12	38,130	4.00	-38,130	46,755
16 फर. 2009 \$	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16 फर. 2009 \$	1	—	—	—	—	—	11	10,680	11	10,680	4.00	-10,680	
17 फर. 2009	1	—	—	—	—	—	8	11,670	8	11,670	4.00	-11,670	
17 फर. 2009 \$	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17 फर. 2009 \$	1	—	—	—	—	—	18	29,255	18	29,255	4.00	-29,255	38,870
18 फर. 2009	1	—	—	—	—	—	9	11,215	9	11,215	4.00	-11,215	
18 फर. 2009 \$	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18 फर. 2009 \$	1	—	—	—	—	—	23	29,170	23	29,170	4.00	-29,170	
19 फर. 2009	5	—	—	—	—	—	2	170	2	170	4.00	-170	
19 फर. 2009 \$	14	1	500	1	500	5.50	—	—	—	—	—	500	38,330
19 फर. 2009 \$	5	—	—	—	—	—	17	28,925	17	28,925	4.00	-28,925	
19 फर. 2009 ~	90	1	785	1	785	5.50	—	—	—	—	—	785	
19 फर. 2009 &	2	—	—	—	—	—	9	9,020	9	9,020	4.00	-9,020	
19 फर. 2009 &	2	—	—	—	—	—	9	9,020	9	9,020	4.00	-9,020	

@ : रेपो को घटकर। \$: द्वितीय एलएएफ। \$\$: एलएएफ के तहत विशेष स्थिर दर रेपो। ~ : विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत. & : अतिरिक्त एलएएफ ' — ' : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ रुपए)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियाँ			स्वीकृत बोलियाँ			भा.रि. बैंक पर भार	कुल निर्गम (8+9+10)	भारित औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य						
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91-दिवसीय खजाना बिल													
2008-2009													
2 जुलाई	4 जुलाई	500	68	2,131	750	10	500	750	—	1,250	97.87	8.8131	56,454
1 अक्टू.	3 अक्टू.	5,000	109	7,752	500	10	500	500	—	1,000	97.84	8.8550	59,706
7 जनवरी	9 जनवरी	8,000	194	23,149	—	21	8,000	—	—	8,000	98.87	4.7074	71,846
18 फरवरी	21 फरवरी	5,000	131	15,552	2	37	5,000	2	—	5,002	98.84	4.7484	77,338
182-दिवसीय खजाना बिल													
2008-2009													
9 जुलाई	11 जुलाई	1,500	84	3,923	500	44	1,500	500	—	2,000	95.58	9.3401	20,288
1 अक्टू.	3 अक्टू.	2,000	77	3,252	175	11	500	175	—	675	95.71	9.0111	24,303
7 जनवरी	9 जनवरी	1,500	90	5,331	—	6	1,500	—	—	1,500	97.76	4.6372	22,175
18 फरवरी	21 फरवरी	1,500	63	2,760	—	40	1,500	—	—	1,500	97.73	4.7212	20,175
364-दिवसीय खजाना बिल													
2008-2009													
2 जुलाई	4 जुलाई	1,000	107	3,386	9	14	1,000	9	—	1,009	91.78	9.1716	56,220
8 अक्टू.	10 अक्टू.	2,000	131	7,344	—	38	2,000	—	—	2,000	92.28	8.4477	54,041
14 जनवरी	16 जनवरी	1,000	69	4,235	—	19	1,000	—	—	1,000	95.74	4.5056	49,930
11 फरवरी	13 फरवरी	3,000	116	9,810	—	22	3,000	—	—	3,000	95.65	4.5822	48,440

टिप्पणियाँ : 1. 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फॉर्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है।
2. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगिता बोलियों को अनुमति दी गई है।
3. कट-ऑफ कीमत पर निहित लाभ को वास्तविक /364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्टूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक /365 दिवस की गिनती की प्रथा में परिवर्तित कर दिया गया है।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास संचयी नकद जमा शेष

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	दिनांक													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13 फरवरी 2009	31 जनवरी	1 फरवरी	2 फरवरी	3 फरवरी	4 फरवरी	5 फरवरी	6 फरवरी	7 फरवरी	8 फरवरी	9 फरवरी	10 फरवरी	11 फरवरी	12 फरवरी	13 फरवरी
	2,03,145	4,06,290	6,12,770	8,10,250	10,05,863	12,03,786	14,03,687	15,96,290	17,88,892	19,83,209	21,79,783	23,79,051	25,72,002	27,72,519
27 फरवरी 2009	14 फरवरी	15 फरवरी	16 फरवरी	17 फरवरी	18 फरवरी	19 फरवरी	20 फरवरी	21 फरवरी	22 फरवरी	23 फरवरी	24 फरवरी	25 फरवरी	26 फरवरी	27 फरवरी
	2,01,203	4,02,406	5,97,645	7,98,298	9,98,234	12,08,274	14,18,852							

टिप्पणी : ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संचयी आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #	पखवाड़े के दौरान जारी #	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
4 जनवरी 2008	1,27,154	9,453	6.87 — 9.82
11 अप्रैल 2008	1,49,986	8,461	8.00 — 9.72
4 जुलाई 2008	1,64,557	4,094	8.30 — 10.60
10 अक्टूबर 2008	1,74,975	12,016	8.92 — 21.00
2 जनवरी 2009	1,52,901	12,847	7.00 — 11.50
16 जनवरी 2009	1,62,883	19,438	6.10 — 11.50

@ : प्रभावी वार्षिक ब्याज दर परास।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
15 जनवरी 2008	42,392	5,589	7.35 — 12.50
15 अप्रैल 2008	35,794	6,283	7.74 — 10.25
15 जुलाई 2008	48,342	5,917	9.50 — 12.25
15 अक्टूबर 2008	49,359	3,039	11.90 — 17.75
15 जनवरी 2009	40,803	10,682	7.75 — 14.00
31 जनवरी 2009	51,668	4,855	6.75 — 13.00

@ : पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बड़ा दर का परास।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 1993-94=100)

मद / समाप्त सप्ताह	भार	2008		2009	निम्नलिखित पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		9 फर.	13 दिस.*	7 फर. #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सभी पण्य	100.00	219.4	229.9	228.0	-0.2	-0.9	0.6	3.9
प्राथमिक वस्तुएं	22.02	229.7	248.3	248.0	-0.2	-0.5	4.7	8.0
(i) फल और सब्जियां	2.92	214.6	257.6	256.2	0.3	-4.0	6.8	19.4
ईंधन, विद्युत, प्रकाश और लुब्रिकैंट	14.23	333.6	331.8	323.5	0.5	-1.9	-5.4	-3.0
विनिर्मित उत्पाद	63.75	190.3	200.8	199.7	-0.4	-0.7	1.1	4.9
(i) चीनी, खांडसारी और गुड़	3.93	152.3	167.5	180.0	2.2	5.3	13.7	18.2
(ii) खाद्य तेल	2.76	186.8	184.8	180.4	-0.3	-0.9	-8.1	-3.4
(iii) सीमेंट	1.73	220.9	221.9	222.4	0.5	0.5	0.5	0.7
(iv) लोहा और इस्पात	3.64	280.6	322.6	287.3	-1.7	-10.0	-18.6	2.4

* : उपलब्ध अद्यतन अंतिम आंकड़े।

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2008	2009				
	20 फरवरी	16 फरवरी	17 फरवरी	18 फरवरी	19 फरवरी	20 फरवरी
1	2	3	4	5	6	7
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	17617.60	9305.45	9035.00	9015.18	9042.63	8843.21
एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी (3.11.1995=1000)	5154.45	2848.50	2770.50	2776.15	2789.35	2736.45

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त (टर्नओवर)*

(करोड़ रुपए)

	समाप्त सप्ताह						
	9 जनवरी 2009	16 जनवरी 2009	23 जनवरी 2009	30 जनवरी 2009	6 फरवरी 2009	13 फरवरी 2009	20 फरवरी 2009
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बैंक							
क) लिए गए उधार	7,966	9,848	8,576	5,681	9,405	8,271	11,938
ख) दिए गए ऋण	9,424	11,135	10,457	7,147	11,118	9,978	13,961
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिए गए उधार	1,464	1,289	1,899	1,466	1,712	1,710	2,023
ख) दिए गए ऋण	6	1	17	—	—	3	—
3. कुल							
क) लिए गए उधार	9,430	11,137	10,474	7,147	11,118	9,981	13,961
ख) दिए गए ऋण	9,430	11,137	10,474	7,147	11,118	9,981	13,961

टिप्पणी : 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

* : इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य)*

(करोड़ रुपए)

मद	समाप्त सप्ताह					
	16 जनवरी 2009	23 जनवरी 2009	30 जनवरी 2009	6 फरवरी 2009	13 फरवरी 2009	20 फरवरी 2009
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	1,72,790	1,49,717	85,966	91,002	1,04,074	73,919
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	2,377	998	616	140	1,011	895
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	8,928	5,482	6,723	11,216	12,334	6,024
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	139	1,656	60	893	884	820
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	3,001	3,510	1,499	1,920	2,149	1,834
II. भारतीय रिजर्व बैंक *	1,135	1	89	17	470	—

@ : रेपो लेनदेन को छोड़कर।

* : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद में उसके अन्य कार्यालयों के लेनदेन भी शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

स्थिति की तारीख	वणिक						अंतर बैंक					
	एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई			एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खरीद												
2 फरवरी 2009	1,151	906	259	217	709	554	2,858	6,343	332	2,775	1,323	57
3 फरवरी 2009	1,103	698	808	231	572	417	3,124	5,889	683	2,173	1,396	78
4 फरवरी 2009	1,443	815	446	327	596	594	4,394	5,686	575	2,843	1,442	60
5 फरवरी 2009	1,291	650	476	189	620	438	2,877	4,644	414	2,376	1,315	93
6 फरवरी 2009	1,306	777	479	253	633	480	2,889	4,277	259	2,628	1,188	121
बिक्री												
2 फरवरी 2009	1,568	657	373	206	695	553	2,793	6,521	387	2,750	1,368	66
3 फरवरी 2009	1,156	819	436	223	545	526	3,225	6,988	839	2,186	1,395	86
4 फरवरी 2009	1,422	998	460	316	604	536	4,324	5,583	531	2,830	1,640	68
5 फरवरी 2009	1,561	511	271	197	597	477	2,697	4,202	398	2,372	1,377	68
6 फरवरी 2009	1,236	868	374	251	592	538	2,750	4,268	333	2,664	1,217	89

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा ।

आइ एन आर = भारतीय रुपया ।

+ : बाजार बंद ।

टिप्पणी : ये आंकड़े वणिक और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ रुपए)

	समाप्त सप्ताह					
	16 जनवरी 2009	23 जनवरी 2009	30 जनवरी 2009	6 फरवरी 2009	13 फरवरी 2009	20 फरवरी 2009
1	2	3	4	5	6	7
राशि	597.48	168.40	112.04	294.67	660.02	649.61

स्रोत : भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ रुपए)

धारक	20 फरवरी 2009					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल				कुल (2+3+4+5)	सप्ताह में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
1	2	3	4	5	6	7	8
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	—	—
बैंक	—	41,146	9,301	20,970	71,417	2,452	32,113
राज्य सरकारें	78,360	10,096	1,175	4,300	93,931	8,881	-3,684
अन्य	1,609	27,856	10,699	23,171	63,334	-2,480	17,598

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार

(भा.रि.बैंक पर भार (डिवाल्वमेंट) / निजी स्थानन तथा खुला बाजार परिचालनों में बिक्री / खरीद)

(अंकित मूल्य करोड़ रुपए में)

	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2008-2009 (20 फरवरी 2009 तक)	2007-2008 (22 फरवरी 2008 तक)	2007-2008	2008-2009 (20 फरवरी 2009 तक)	2007-2008 (22 फरवरी 2008 तक)	2007-2008
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल जिसमें :	2,15,000	1,56,000	1,56,000	1,70,972	1,11,196	1,10,671
1.1 भारिबैं पर भार / निजी स्थानन	—	—	—	—	—	—
2. भारिबैंकेखुला बाजार परिचालन - बिक्री खरीद	9,040 42,817	6,391 8,265	7,587 13,510	—	—	—

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य)[@]

(राशि करोड़ रुपये में)

यद	13 फरवरी 2009 को समाप्त सप्ताह			20 फरवरी 2009 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सकेतिक **		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सकेतिक **	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2008-09	262	4.5229	5.2534	285	4.9393	4.9953
2009-10	1,695	4.4844	5.6877	1,781	4.3624	5.6345
2010-11	676	4.5372	5.1720	964	4.4360	5.0514
2011-12	1,179	4.7094	5.2057	105	4.9860	5.1001
2012-13	36	5.4488	5.6465	51	5.5967	5.5996
2013-14	915	5.7528	5.9721	322	5.7010	5.9080
2014-17	6,670	5.7514	7.4000	3,476	5.7493	6.6876
2017-18	7,587	6.2370	6.8641	3,076	6.2625	6.8327
2018 से आगे	33,017	5.6784	7.9888	26,900	5.7826	8.1000
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	506	6.4500	7.2500	447	3.9344	7.4899
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	1,749	4.1000	4.5996	932	4.1500	4.9471
ख) 15 - 91 दिन	4,555	4.2500	5.7000	2,444	4.2500	4.7401
ग) 92 - 182 दिन	435	4.5000	4.7500	50	4.4000	4.4000
घ) 183 - 364 दिन	945	4.4000	4.6000	912	4.3500	4.6501
II. भा.रि.बैं.* : बिक्री	107			—		
: खरीद	363			— +		
III. रेपो लेन देन * (भा. रि. बैं. से इतर)	राशि	दरें (% वार्षिक)	दरें (% वार्षिक)	राशि	दरें (% वार्षिक)	दरें (% वार्षिक)
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	96,611	2.60 (1)	8.25 (42)	64,780	3.75 (1)	4.35 (5)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	61	3.80 (1)	3.90 (3)	150	3.80 (1)	4.20 (1)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	16,492	3.25 (1)	4.15 (3)	7,578	3.85 (1)	4.30 (5)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	7,474	3.80 (1)	4.05 (3)	5,264	4.00 (1)	4.30 (5)
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	10,030	3.80 (1)	4.05 (3)	5,657	3.95 (1)	4.30 (5)
IV. भा.रि.बैं. : रेपो * ^	1,170	—	5.50	1,285	—	5.50
: रिवर्स रेपो !	2,42,935	—	4.00	1,68,235	—	4.00

@ : भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेन देन शामिल है।

* : भा.रि.बैं. बिक्री और खरीद में अन्य कार्यालयों में हुए लेन देन भी शामिल हैं।

** : न्यूनतम और अधिकतम सकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) गैर मानक समूह (5 करोड़ रुपये से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

* : कारोबार का पहला चरण (फ्रस्ट लेग) दर्शाता है।

^ : दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो नीलामी शामिल है।

+ : इसमें विशेष बाजार परिचालन के अंतर्गत के तेल मार्केटिंग कम्पनियों के शून्य रूप (अंकित मूल्य) के भारत सरकार के विशेष बांड (तेल बांड) का क्रय शामिल है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े रेपो अवधि दर्शाते हैं।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अनंतिम

उपयुक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः 550 रुपये और 1,500 रुपये तथा विदेश में क्रमशः 34 अमरीकी डॉलर और 85 अमरीकी डॉलर है।

श्रीमती रेखा मिश्रा द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 के लिए स्वरूपबद्ध, प्रकाशित और उनके द्वारा ऑनलुकर प्रेस, 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 टेलि.: 2218 3544 फॅक्स : (91-22) 2218 8702 में मुद्रित।